



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आषाढ़ 1937 (श0)
(सं0 पटना 709) पटना, मंगलवार, 30 जून 2015

सं0 2/नि0 1-101/2012-107
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

15 जून 2015

विषय:—तत्कालीन नोडल विभाग (जल संसाधन विभाग) के पत्रांक-1181 दिनांक 05.03.2012 के द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के लिए संविदा पर नियोजन हेतु अनुशंसित एवं प्रथम पुनर्नियोजित (जिनकी संविदा अवधि जनवरी 2015 में समाप्त हो गयी) के कुल 3 (तीन) कनीय यांत्रिक अभियंता (सूची संलग्न) को (स्थायी रिक्त पदों के विरुद्ध) सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा इस विभाग के कनीय अभियंताओं के लिए अनुमोदित दरों के पारिश्रमिक पर एक वर्ष के लिए संविदा पर द्वितीय पुनर्नियोजन की स्वीकृति के संबंध में।

1. उद्देश्य— लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत नियमित नियुक्ति हेतु रिक्तियां कर्मचारी चयन आयोग में लंबित रहने के कारण जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2012 में संविदा के आधार पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लिए अनुशंसित एवं कार्यरत (जिनकी संविदा अवधि जनवरी 2015 में समाप्त हो गयी) के कुल 3 (तीन) कनीय अभियंता (यांत्रिक) के द्वितीय पुनर्नियोजन की आवश्यकता है।
2. पूर्व में कनीय अभियंता से संबंधित नियुक्ति के मामले में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना नोडल विभाग के रूप में कार्यरत था। वर्तमान में जल संसाधन विभाग की नोडल व्यवस्था समाप्त हो चुकी है तथा अब लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग स्वयं ही अपना नोडल विभाग है। इसलिए अब संविदा पर पुनर्नियोजन की कार्यवाई लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से ही की जानी है।
3. संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प संख्या-2401 दिनांक 18.07.07 द्वारा निरूपित हैं। विशेष परिस्थिति में कार्यहित एवं जनहित में नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य विलम्बता की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0-1718 दिनांक 06.05.2010 द्वारा पुनः एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
4. सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना के संकल्प संख्या-8025 दिनांक 21.05.13 के द्वारा सभी रिक्त पदों पर एक वर्ष के अन्दर नियमित नियुक्ति पूरी कर लेने तथा नियमित नियुक्ति में होने वाले विलंब के मद्देनजर प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार संविदा नियोजन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत निदेशों के अनुसार अधिकतम एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन करने का अद्यतन आदेश जारी किया गया है।

5. उपर्युक्त परिपेक्ष्य में कनीय अभियंता (यांत्रिक) के पद पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य विलंबता एवं विभाग के अंतर्गत संचालित जलापूर्ति, स्वच्छता मिशन, शौचालय निर्माण आदि सरकार के विकास कार्य सुचारु रूप से संपादन को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कार्यहित में तथा विशेष परिस्थिति में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में वर्ष 2012-13 में संविदा पर नियोजित (जिनकी संविदा अवधि जनवरी 2015 में समाप्त हो गयी) के कुल 3 (तीन) कनीय अभियंताओं (यांत्रिक) में से वैसे कनीय अभियंताओं जिनका कार्यकलाप अच्छा हो और जिनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त नहीं हुई हो का अगले एक वर्ष के लिए द्वितीय पुनर्नियोजन किए जाने की आवश्यकता है।
6. अतः लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कनीय अभियंता (यांत्रिक) के पद पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य विलंबता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कार्यहित तथा विशेष परिस्थिति में इस विभाग के अंतर्गत संविदा पर प्रथम पुनर्नियोजन (जिनकी संविदा अवधि जनवरी 2015 में समाप्त हो गई) के कुल 3 (तीन) कनीय अभियंता (यांत्रिक) को वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अगले एक वर्ष के लिए द्वितीय पुनर्नियोजन करने का निर्णय दिनांक 26.05.2015 को सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या-12 में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में लिया गया है (सूची संलग्न)।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाए।
अनु०— कनीय यांत्रिक अभियंता की सूची।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिशिर सिन्हा,
प्रधान सचिव।

द्वितीय पुनर्नियोजन हेतु कनीय अभियंता (यांत्रिक) की सूची

| क्र० | योग्यता क्रमांक | कनीय अभियंता (यांत्रिक) का नाम | जन्म तिथि | पिता का नाम | स्थायी पता | पत्राचार का पता | आरक्षण कोटि |
|------|-----------------|--------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1201 | श्री कुमार गौरव | 14.02.1990 | स्व० विकास चन्द्र सिंह | कुमार गौरव, c/o प्रकाश चन्द्र सिंह, ग्राम+पो०— अथरी, थाना—रुन्नी सैदपुर, जिला— सीतामढ़ी बिहार—843311 | कुमार गौरव, c/o प्रकाश चन्द्र सिंह, ग्राम+पो०— अथरी, थाना—रुन्नी सैदपुर, जिला— सीतामढ़ी बिहार—843311 | सामान्य |
| 2 | 512 | अनुप्रीति | 18.02.1987 | श्री हीरालाल सिंह | ग्रा०— रसीदपुर पो०— खानपुरमाल थाना— बाथ जिला— भागलपुर बिहार— 813212 | ग्रा०— रसीदपुर पो०— खानपुरमाल थाना— बाथ जिला— भागलपुर बिहार— 813212 | पि०व०म० |
| 3 | 446 | लखेन्द कुमार | 02.02.1988 | श्री रामवृक्ष राम | ग्रा०— छपरा मनोरथ पो०— थाना— भाया— मुजफ्फरपुर— बिहार—848108 | ग्रा०— शाहवाजपुर पो०— भिखनपुर थाना— अहियापुर जिला— मुजफ्फरपुर बिहार— 842004 | अनु० जा० |

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 709-571+100-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>